

DFCCIL/Corporate Office
HR Department/Welfare Section

No. HQ-HR0WELF(RTI)/1/2020-HR-WELFARE/Computer No. 1568 Dated: 12.01.2024

Sub.:- Information under RTI Act, 2005

Ref.- Registration No. DFCCIL/R/E/24/00061 dated 15.01.2024 [RTI No. 68]

Sl.	Information Sought	Information provided
1.	Please provide a copy of Office Order or Circular issued for payment of ex-gratia or bonus or special performance reward to all category of employees for the Financial Year 2021-22.	On the above-cited subject, the following matter pertains to our section. This office Circular No. 10/2022, dtd. 29.03.2022 for Revision in Rule 9(h) of DFCCIL Welfare Trust Rules is enclosed herewith.

अपर महाप्रबंधक/मानव संसाधन

महाप्रबंधक/मानव संसाधन

संयुक्त महाप्रबंधक/प्रशासन (सीपीआईओ)

12.01.24
कनिष्ठ प्रबंधक/मानव संसाधन



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कार्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.

भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

A Government of India (Ministry of Railways) Enterprise

HQ/HR/3/Welfare Fund Rules

Date: 29.03.2022

Circular No. 10 /2022

Sub: Revision in Rule 9 (h) of DFCCIL Welfare Trust Rules.

Ref: i. This office Circular of even No. dated 30.04.2015.
ii. Circular No. 259/2018 dated 04/07/2018.


The Rule 9(h) of DFCCIL Welfare Trust is hereby revised as under with effect from 29.03.2022:-

9 (h) Financial Assistance in case of death

Sl.	Existing Provision	Revised Provision
1	In case of death of an employee, an amount of Rs. 2 lakhs may be provided to the family.	In case of death of an employee, an amount of Rs. 5 lakhs will be paid to the family.

Note:- The instant death case of Late Shri. Sunil Gupta, GM (Electrical) of ADI Unit (Emp ID 102806) who expired on 28.03.2022 will be eligible for revised amount.

This issues with the approval of Competent Authority.


(B. K. Goyal)
Group General Manager/HR

Copy to:-

1. Secy. To MD for kind information to MD.
2. Director OP&BD, Director/Infra, Director/Finance & CVO.
3. ED/INFRA-I/EDFC, ED/INFRA-II/EDFC, ED/INFRAWDFC, ED/Asset Management/WDFC & CS
4. All GGMs/GMs/CGMs/GM-CO for information of all employees
5. Manager/It- for uploading the same on Intranet

Regd. & Corporate Office: 5th Floor, Supreme Court Metro Station Building Complex, New Delhi-110001.
Tel.: +91-11-23454700, Fax: 011-23454701, Web: www.dfccil.gov.in CIN: U60232 DL 2006 GOI 155068